

भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान  
मोदीपुरम, मेरठ - 250 110

भारत की आजादी का अमृत महोत्सव पर किसान गोष्ठी का आयोजन

क्रियाकलाप: किसानों के लिए भोजन और पोषण

एस.एम.डी का नाम – एन.आर.एम (आईसीएआर-आई.आई.एफ.एस.आर, मोदीपुरम, मेरठ)

गोष्ठी का नाम - किसानों के लिए भोजन और पोषण

दिनांक : 26 अगस्त, 2021

राज्य का नाम	संस्थान का नाम	गतिविधि की संख्याँ	प्रतिभागियों की संख्याँ
उत्तर प्रदेश	भा.कृ.अनु.प.-भा.कृ.प्र.अनु.स. मोदीपुरम मेरठ	01	90

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर किसानों के लिए खाद्य एवं पोषण विषय पर 26 अगस्त 2021 को देशव्यापी अभियान शुरू किया गया। इसी अभियान के तहत भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही फार्मर फस्ट परियोजना के तहत भायंगी-भंगेला गाँव, जिला मुजफ्फरनगर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में 90 किसानों ने अपनी भागेदारी सुनिश्चित की। किसान गोष्ठी का विषय वस्तु किसानों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा रहा जोकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया गया था। इस किसान गोष्ठी का आयोजन डॉ. पी.सी.जाट, डॉ. ए.के. प्रुष्टी, डॉ. पुनम कश्यप, डॉ. एम. शमीम तथा डॉ. सुनील कुमार ने किया। डॉ. पी.सी. जाट ने फसल प्रबन्धन तथा हरे चारे का पशुधन स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला। डॉ. ए.के. प्रुष्टी ने कृषि प्रणाली के विभिन्न आयामों का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में महत्व को दर्शाया। डॉ. पुनम कश्यप ने बागवानी फसलों जैसे फलों तथा सब्जियों का पोषण सुरक्षा में महत्व पर व्याख्यान दिया। गृह वाटिका से परिवार की साल भर की सब्जी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है तथा सभी किसान भाईयों से अनुरोध किया कि अपने दैनिक आहार में फलों, दालों, अन्डा, दूध व दही आदि को अवश्य शामिल करें। डॉ. मो. शमीम ने मौसम आधारित कृषि से जुड़े जोखिम को कम करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में कृषि से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई तथा रबी की फसलों तथा पशुधन सुरक्षा पर जानकारी साझा की गई।

डॉ. देवेन्द्र कुमार

नोडल ओफिसर

भा.कृ.अनु.प.-भा.कृ.प्र.अनु.स.

मोदीपुरम, मेरठ

# गोष्ठी की कुछ तस्वीरें

